

AD-MANUM FINANCE LIMITED

www.admanumfinance.com

AMFL/BSE/ 2022-23/01

Date: 02-06-2022

Online Filing at: www.listing.bseindia.com

To,
The General Manager,
DCS-CRD
BSE Limited
PhirozeJeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001(MH)

BSE Scrip Code: 511359

Subject: Notice Published in Newspaper for Intimation to the Shareholder for Transfer of Shares to Investor Education and Protection (IEPF) Account.

Dear Sir/Madam,

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) NOTICE is hereby given to Shareholders of the Company that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules. 2016 ("the Rules" as amended, the dividend declared on the equity shares of Rs. 10/- each for the financial year 2013-14, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) on or before 05-12-2022.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to please contact Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA). Ankit Consultancy Pvt. Ltd. at 60. Electronic Complex, Near Pardeshipura, Indore (M.P.)- 452010 Phone: 0731·2551745146, E~mail: investor@ankitonline.com.

Thanking You, Yours Faithfully

FOR, AD-MANUM FINANCE LIMITED

(CS. MOHD RAEES SHEIKH) COMPANY SECRETARY MEM.NO. F6841

Encl. As above.



Regd. Office: Agarwal House, 5 Yeshwant Colony Indore 452003 MP

Phone: 0731-4714000 | Fax: 0731-4043193 | Email: cs@admanumfinance.com

CIN: L52520MP1986PLC003405



AD-MANUM FINANCE LIMITED

ADMANDM PHNINGE SHOPED CIN:L52520MP1986PLC003405

"Agarwal House" Ground Floor, 5, Yeshwant Colony, Indore-452003 Phone No. 0731-4714024 Fax: 0731-4043193 Website:admanumfinance.com, Email: cs@admanumfinance.com,

NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) NOTICE is hereby given to Shareholders of the Company that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules. 2016 ("the Rules" as amended, the dividend declared on the equity shares of Rs. 10/- each for the financial year 2014-15, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) on or before 05-12-2022 Further that the resultant Equity shares of Rs. 10/- each on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also liable be transferred to the IEPF as per the procedure set out in the Rules.

In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on our website at www.admanumfinance.com Therefore, the Shareholders of the Company are requested to claim the dividend declared for the financial year 2014-15 on or before 05-12-2022 to avoid transfer of shares to the IEPF.

Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate in lieu of the original certificate held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into demat form and transfer in favour of IEPF.

Further that the original share certificate which is registered in the name of original shareholders and Transferred to the IEPF will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the demat account of the IEPF.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 05-12-2022 Company shall transfer the resultant Shares and Dividend for the year 2014-15 in the account of IEPF pursuant to the provisions of the Act and the Rules.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares' so transferred to the IEPF. However, any person whose shares and unpaid dividend is transferred to the IEPF may claim the shares and dividend from the Investor Education and Protection ~und Authority ("IEPF Authority") pursuant to the provisions of Section 124 and 125 of the Act by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to please contact Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA)· MIS Ankit Consultancy Pvt Lld at 60. Electronic Complex, Near Pardeshipura, Indore (M.P.)- 452010 Phone: 0731·2551745146, E~mail: ankit 4321@yahoo.com.

For AD- MANUM FINANCE LIMITED

(CS. MOHD. RAEES SHEIKH) COMPANY SECRETARY

MEM. NO, F6841

Date: 01.06.2022 Place: Indore



Regd. Office: Agarwal House, 5 Yeshwant Colony Indore 452003 MP

MFINA

WOORE

Phone: 0731-4714000 | Fax: 0731-4043193 | Email: cs@admanumfinance.com

CIN: L52520MP1986PLC003405



आधा दर्जन महिलाओं से चेन लूटने वाले दो पकडा

इंदौर। राजेन्द्र नगर पुलिस ने सीरियल लूट की वारवार्ट कर रहे दो बदमारों को पकड़ा है। पकड़ाय आरोपियों में एक शाजपुर और दूसरा इंदौर का रहने वाला है। जेल से मुलाकात के दौरान दोनों लूट की वारवात करने लगे थे। आरोपियों ने पूछताछ में करीब छह वारवर्ता की जानकारी दी है। टीआई मनीष डाबर के मुताबिक पकड़ाए आरोपियों के नाम आकाश पुत्र सत्यनारायण मिलाला वजार आहाचित के जारिक हैं जारिक हैं कि विश्व हैं कि विवासी शाजापुर और एंकज पुत्र सुरेश रादेर निवासी राजाजार है। दोनों ने करीब छह लूट की वारती कबूली है। आरोपियों के पास से सोने के मंगलसूत्र और चैन सहित बाइक बरामद की गई है। एकड़ाए आरोपियों ने बताया कि उन्होंने झरकपुरी,अन्गपूर्णा और राजेन्द्र में लुट की वारदातें की थी। राजेन्द्र नगर इलाके के के यहां आरोपियों ने दो दिन पहले लूट की वारदात हुई थी। प्रलिस ने मामले को दबाते हुए सीसीटीवी फरेज आने पर हुई था। पुरास ज जानस का ब्यार हुए राजातका बुरून जन न मुपपुप तलाश शुरू की। आरोपी अपना इलाका बदलकर वारवत कर अहीरखेड़ी इलाके से फरार हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पिछले दिनों जो लूट की वारदातें की थी। उसमें नकली चेन भी उनके हाथ लगी थी। इस मामले में पीड़ित पथ ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।

ड्रग सप्लायर बेटे का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाली मां २२ दिन से फरार

इंदौर। ड्रग सप्लाई मामले में सजायापता अभिषेक जैन का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने वाली उसकी मां सीमा जैन 22 दिन से मृत्यु प्रमाण पत्र पर करन वाला उसका ना साना जन 22 हजा स पुलिस को चकमा दे रही है। एमजी रोड़ पुलिस ने अभिषेक और उसकी मां सीमा पर धोरवाधड़ी का केस दर्ज किया था। आलीराजपुर निवासी अभिषेक जैन को मादक पदार्थों की खरीद फरोखत के मामले में राजा सुनाई गई थी। वे साल पूर्व कोरोना महामारी के दौरान अभिषेक ने पैरोल हासिल कर लिया और बाद में सीमा के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र बना जेल में पेश कर दिया। सीमा ने कहा कि अभिषेक की कोरोना में मौत हो चुकी है। जेल प्रशासन ने भी सामान्य घटना समझ केस फाइल बंद कर दी। हाल ही एनसीबी ने अभिषेक को गाजरात से पकड़ा तो पता चला उसने राहल उर्फ रिकू चौधरी (बड़ोदरा), नौशाद (छोटा उदयपुरा), शोएब (छोटा उदयपुरा) की मदद से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया था। उसने मा सीमा के माध्यम से जेल प्रशासन को फर्जी प्रमाण पत्र सौपा था। मामले को 22 दिन हो गए लेकिन पुलिस सीमा को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। अभिषेक जैन को उसके साथियों के साथ डग सप्लाई के मामले में एनसीबी द्वारा पकड़ा गया था। वर्ष २०१९ में न्यायालय द्वारा १२ साल की संजा सुनाएं जाने के बाद सभी को सेंट्रल जेल भेज दिया। १८ सितंबर २०२१ को अभिषेक ने पैरोल ले ली और गुजरात चला गया। यहां उसने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया और सीमा के माध्यम से जेल अफसर को दे दिया। पिछले महीने गुजरात पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह को पकड़ा तो अभिषेक की जानकारी मिली और एनसीबी को सूचना दी। आरोप है कि षड़यंत्र में अभिषेक का पिता आजाद जैन भी शामिल है जो कोर्ट में बाबू के पद पर पदस्थ है। आजाद ने ही फजीवींड़ा का

सेवानिवृत्ति पर ३१ अधिकारियों को विदाई दी

इन्त्रेर। पुलिस में अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत होने वाले इन्त्रेर पुलिस के 31 पुलिस अधिकारियों का विदाई समारोह, बुधवार को पुलिस कार्यालय के समागार में आयोजित किया गया। व्यक्तिस्वर हरिनारायणवारी मिश्र के मार्गदर्शन में आयोजित इस समारोह में, एडीसीपी राजेश हिंगणकर, डीसीपी निमंष अग्रवाल, एसीपी अजय बानपेथी की उपरिथति में सेवानिवृत होने वाले पुलिस अधीकारीगण-उप पुलिस अधीक्षक भारत भूषण चौहान, राकेश गुप्ता, अजीत सिंह बैस सहित विगत माह मे सेवानिवृत्त हुए ७ पुलिस अधिकारी/कर्मचारी, इस माह सेवानिवृत्त हुए २१ पुलिस अधिकारी/कर्मचारी व उनके परिजन तथा आगामी माह में सेवानिवृत्त होने वाले 25 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी एवं कार्यालयीन स्टाफ व अन्य पुलिस कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सभी का शाल, श्रीफल व पुष्प गुळ के साथ स्वागत कर पुलिस सेवा के लिए धन्यवाद देते हुए उत्तके भविष्य के लिये मंगल कामना की गरी।

नगर निगम चुनाव घोषित...

तीन साल बाद मेयर हाउस फिर बनेगा शहर का मुख्य केंद्र

भाजपा से महापौर के लिए पांच तो कांग्रेस से एक मात्र नाम

नगर पालिक निगम, इत्वीर

विपिन नीमा

इंदौर। तीन साल बाद होने जा रहे नगरीय निकायों के चुनाव का बिगुल बज गया है। तीन साल से विराम पड़े मेयर हाउस भी नए मेयर और नई एमआईसी के साथ नर्ड रौनक आने वाली है। मेयर हाउस को सजाने व संवारने के काम भी शुरू हो चुका है। उधर भाजपा ने महापौर के दावेदारों की रांभिक सूची दो दिन पहले ही तैयार कर रखी है, जबकि कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी का नाम पहले से ही घोषित है। इस बार इंदौर के महापौर सामान्य पुरुष वर्ग का

इंदौर नगर निगम चुनाव में तीन साल बाद होने जा रहे हैं । 19 फरवरी 2019 को तात्कालीन महापौर मालिनी गौड़ का कार्यकाल समाप्त हुआ था। उसके बाद प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव कोरोना की वजह से नहीं हो पाएँ थे। इसके

अलावा काननी अडचनों के कारण टलते गए। अब चनाव का बिगल बज चका है सारी राजनीति पार्टीयां एक्टिव हो चुकी है। महापौर और पार्षद के दावेदार भी सक्रिय

अब मेयर हाउस पर कौन बैठेगा और

एमआईसी (महापौर परिषद) में कौन होगा. इसका फैसला अगले महीने हो जाएगा। महापौर का पद खाली होने के बाद से ही सरकार ने संभागायक्त डॉ. पवन शर्मा को ासक नियुक्त कर निगम की कमान सौंप रखी है। संभागायुक्त डॉ.

ओपन वेल मोटर चरा ली। पलिस के मुताबिक फरियादी पद्म कुमार जैन निवासी खेह नगर है। फरियादी की

न्यू बिना रोड लाइन ट्रांसपोर्ट में कोई अज्ञात बदमाश दुकान की दीवार

तोड़कर अंदर प्रवेश कर दुकान में रखे सम्बर्सेबल पंप व ओपन वेल मोटर चोरी

कर ले गरा। घटना २४ मर्ड की रात

बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

मामले में जांच की जा रही है फिलहाल

पुलिस को आरोपों के बारे में टोस सराग

नहीं लगा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल चोरों के बारे में पता लगा रही

है। वही पिछले दिनों खातीवाला टैंक

रिथत प्लैट में भी चोरों ने हाथ साफ

बदमाश नकदी चुरा ले गए थे। फरियादी अपने रिश्तेदार को छोड़ने के लिए गए

थे इस बीच चोरों ने मौका पाकर घटना को अंजाम दिया था। मामले में भी

पुलिस अभी तक बदमाशों को गिरपतार

होने के बावजद अपराधों पर अंकश

लट की घटनाएं सामने आ रही है।

बदमाश पुलिस को चुनौती दे रहे हैं।

नहीं कर पाई है। पुलिस कमिश्नर लागू

नहीं लग पा रहा है। लगातार चोरी और

किया था। सोने के आभवण सहित

की है पुलिस में शिकायत पर अज्ञात

-

फरवरी २०१९ से खाली है मेयर हाउस, अब संवरने लगा, बैठेंगे नए महापौर, नई एमआइसी

पवन शर्मा निगम प्रशासक ने बगैर महापौर और एमआईसी के चलते दो बार बजट पेश किया। अब अगला बजट नया महापौर पेश करेगा। ताया गया है कि मेयर हाउस की रौनक बढ़ाने के लिए हाउस को सजाने व संवारने का कार्य दो दिन पहले ही शुरू हो गया है। गोपी नेमा के बारे में बताया गया है कि

संगठन में पकड़ मजबूत है। उन्हें मंदसौर का प्रभारी भी बना रखा है। उपचुनाव में भाजपा को सफलता दिलाई । इसके अतिरिक्त वे व्यापारी प्रकोष्ठ के भी पदाधिकारी हैं। व्यापारियों के बीच उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। इस सब के चलते गोपी नेमा को भी मजबूत दावेदार माना जा

कौन होगा महापौर

इस बार परिषद किसकी बनेगी और महापौर कौन होगा? इस विषय पर अभी से लिखना टीक नहीं है हालांकि कांग्रेस की तरफ से एकमात्र नाम विधायक संजय शुक्ला का तय है, जबकि भाजपा में कई दावेदार सामने आ रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक भाजपा की तरफ से महापौर के जो दावेदार बताए जा रहे हैं, उनमें विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, जीतू जिराती, नेवारा, पूर्व विचायक चुंदरान गुरुश, जातू हिस्सा, नोपी नेमा और पूर्व आईडीए अध्यक्ष मधु वर्मा का नाम शामिन है। इन पांच नामों के बारे में जो वर्चा चल रही है, उसकें मुताबिक रमेश मेंदोला चुनाव नहीं लड़ेंगे। जबिक सुदर्शन गुप्ता और मधु वर्मा प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं।

रहा है। ये सारी बातें प्रारम्भिक स्तर पर चल रही है। अभी कई तरह की परिस्थियां बदलेंगी। सारी स्थितियां देखने के बाद प्रत्याशी का नाम संगठन ही तय करेगा।

पुलिस को देख तीसरी मंजिल से कूद पड़ा चोर

इंदौर। एक चोर ने तीसरी मॉजिल से छलांग लगा दी। वह चोरी की नीयत से एक बिल्डिंग में घुसा था। तभी पुलिस आ गई और अपने बचाव में वह तीसरी मंजिल से कूद गया। इस घटना के दौरान बिल्डिंग के नीचे खड़े लोगों ने इसका वीडियो बना लिया।

घटना मल्हारगंज थाना क्षेत्र में बधवार शाम करीब 4 बजे की बताई जा रही है। युवक चोरी करने एक घर में घुसा था। तभी घर में सो रही महिला जाग गई। इसके बाद युवक छत पर चढ़ गया। इस बीच पुलिस के पहुंचने पर वह कूदने की धमकी देने लगा। पुलिस और परिवार के लोग जब उसे पकड़ने छत पर पहुंचे तो उसने ऊपर से ही छलांग लगा दी। उसे पुलिस ने सड़क पर कंबल फैलाकर बचा लिया।

रैलिंग से लटक कर दे रहा था धमकी

मल्हारगंज पुलिस के मुताबिक मामला गली नंबर दो का है। यहां एक तीन मंजिला बिल्डिंग में युवक चोरी करने घुसा था। इसी बीच रहवासियों की उस पर नजर पड़ी। लोगों ने चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को सूचना दे दी। जब पुलिस के जवान वहां पहुंचे तो छत की रैलिंग पर लटक कर कूदने की धमकी देने लगा। इस बीच रहवासी उसे पकड़ने पहुंचे



तो उसने छलांग लगा दी। जिसके बाद नीचे खड़े लोगों और पुलिस ने उसे बचा लिया।

महाराष्ट का रहने वाला है यवक

चोर को पुलिसकर्मी बाद में जिला अस्पताल ले गए। यहां से मेडिकल के अस्पताल ल गए। यहा स माडकल क बाद उसे थाने ले जाया गया। छत से कूदने वाले युवक का नाम रमेश सुनाने है। वह महाराष्ट्र के धुलिया का रहने वाला है। वहां से एक महिला को भगाकर इंदौर लाया था। पुलिस अभी

बेटी की फीस के तनाव चोर सबमर्सिबल पंप चुरा ले गए इंदौर। जूनी इंदौर क्षेत्र में चोरों ने दीवार तोड़कर दुकान से सम्बर्सेबल पंप व में पिता ने खाया जहर

इंदौर। एक यवक ने तनाव के चलते जहर खाकर जान दे दी। युवक पहले देवास की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था लेकिन लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई। इसके बाद वह परिवार चलाने के लिए हम्माली करने लगा। हालांकि यहां बेहद कम कमाई होने की वजह से वो बच्ची की स्कूल फीस नहीं भर सका। इसी वजह से पिछले कुछ समय से तनाव में था। बेटी इंदौर के स्कीम नंबर 78 में एक निजी स्कूल में पढ़ती थी, उसकी लगभग 40 हजार रुपए फीस

बकाया थी। जहर खाने के बाद युवक लड़खड़ाते हुए अपने भाई के घर पहुंचा और दरवाजे पर ही गिर पडा। जिसका बाद छोटा भाई उसे एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मत घोषित कर दिया। युवक की पत्नी पिछले तीन महीने से दोनों बेटियों के साथ मायके में थी। पुलिस को

फीस को लेकर स्कूल से आ रहे थे कॉल पुलिस के मुताबिक बुढ़ानिया में रहने वाले अमित (35) पुत्र राजकुमार पाल की बुधवार सुबह सदिग्ध परिस्थतियों में मौत हो गई। प्रारमिक जांच में जहर खाने के बाद मौत होने की बात सामने आई है। भाई संदीप के मुताबिक अमित कई दिनों से तनाव में वल रहा था। उसकी दो बेटिया हैं। बडी बेटी तीसरी कथा में पढ़ रही है,

जबकि छोटी बेटी चार साल की है। बड़ी बेटी की स्कूल फीस बाकी थी। जिसे लेकर लगातार स्कूल से कॉल आ रहे थे। इसी से वह परेशान था।

मृतक के पास से कोई सुसाइड लगाई थी, हालाँकि कुछ फायदा नोट नहीं मिला है।

जनप्रतिनिधियों से भी लगाई थी गुहार

बताया जा रहा है कि अमित ने जनप्रतिनिधियों से भी गुहार

नहीं हुआ। वहीं उसकी पत्नी किरण तीन माह से मायके में ही थी। दोनों बच्चियां भी उसके साथ थी। पुलिस के मुताबिक अनिल के पास से कोई सुसाइड नोट नही मिला है। फिलहाल मामले में जांच चल रही है।

खाद्य निरीक्षक से लाखों की धोखाधड़ी

इंदौर। राजेंद्रनगर पुलिस ने नालंदा परिसर निवासी खाद्य निरीक्षक कैलाश चास्करें की पत्ती निशा की शिकायत पर आरोपित चंद्रकांत(नेमानगर), अनिल निवासी केशरबाग रोड के खिलाफ धोखाखड़ी का केस दर्ज किया है। निशा ने प्रलिस को बताया कि आरोपितों ने नेमानगर स्थित एक प्लाट का ४८ लाख रुपये में सौदा किया था। आरोपितों ने छह लाख रुपये से ज्यादा रुपये ले लिए और अनुबंध कर लिया। रजिस्टी के दौरान पता चला आरोपितों दारा बेची पॉपार्टी 99 साल की लीज पर है।

छावनी सहित सभी मंडियों में खरीदी की नगद भुगतान व्यवस्था लागू

व्यापारी को २००००० तक का नगद भुगतान उसी दिन करना होगा

इंदौर । किसान संगठनों की मांग पर बधवार से से ख़ावनी लक्ष्मी नगर मंदी सहित चुजनार त्र का कापना ,एएक्मा नगर महा सहित जिले की सभी मंडियों में नगद भुगतान व्यवस्था लागू कर दी गई है । आज नगद भुगतान में कुछ दिक्कतें जरूर आई लेकिन उनका भी समाधान निकाल लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के रामस्वरूप मंत्री और किसान मजदूर सेना के बबलू जाधव ने बताया कि किसान संगठन लंबे समय से 200000 तक की खरीदी पर नगद भुगतान की मांग कर रहे थे । नगद भुगतान नहीं होने से आरटीजीएस के नाम से या चेक देकर व्यापारी किसानों का भुगतान करने में टालमटोल कर रहे थे और पर्व में करोडों रुपया लेकर व्यापारी लापता हो गए।

इसके चलते किसान संगठनों ने पिछले दिनों मंडी में नीलामी रुकवा दी थी , तभी फैसला हुआ था कि 1 जून से 200000 तक का नगद भुगतान होगा और इससे ज्यादा एक किसान की फसल होती है तो उसे उसी दिन आरटीजीएस किया जाएगा। यह व्यवस्था आज से लागू हो गई । लेकिन कुछ मामलों में दिक्कत यह है कि किसान फसल बेचने

और जिसके नाम जमीन है। उसका आधार कार्ड लेकर नहीं आया था । इस कारण कुछ किसानों को भुगतान में दिक्कत आई। इस संबंध मेंनिर्णय हुआ कि जिस व्यक्ति के नाम जमीन हैं उस व्यक्ति की पावती की फोटो कॉपी तथा आधार कार्ड की फोटो कॉपी किसान लेकर आएंगे और यदि जमीन पिता या मां के नाम पर है और बेटा बेचने आएगा तो वह बेटा उन्हीं कागजो के पीछे लिखकर देगा कि यह मेरे पिता की फसल है और मैं इसे बेचने आया हूं ,अतः

सुसाइड नोट में मोबाइल नंबर लिखकर युवक ने फांसी लगाई

इंदौर। एमआइजी थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट लिखा है जिसमें एक नंबर लिखे हुए थे।उसका पती से विवाद वल रहा था। घरेलू हिंसा का केस भी वल रहा था। पुलिस के मताबिक मतक का नाम उमेश यशराज चरावडे निवासी नेहरूनगर है। खुताबर जूतर का नाम उन्हों बहारा बहारा बहारा निवादा नरह उनह हैं। खजन ने पुलिस को बताया पत्नी रेणु 2019 से अलग रह रही थी। उसने उमेश के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी दायर कर दिया था। संभवतः इसी कारण उमेश ने फांसी लगा ली। इसी तरह पाटनीपुरा निवासी 50 वर्षीय सेवकराम ग्यारसीराम की जहर खाने से मृत्यु हो गई।

AD-MANUM FINANCE LIMITED

Place: Indore Date : 01-06-2022

(CS. Mohd. Races Sheikh) Company Secretary Mem. No. F6841

For AD- Manum Finance Limit

Kriti Kriti Nutrients Ltd.

CIN: L24132MP1996PLC011245 Regd. Office: Mehta Chambers, 34, Siyaga Indore-452 007 Phone: 0731-2719100/ 26 E-mail: cellikritiindia.com. Website: www.k

NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to investor Education and Protection Fund (IEPF)

Invastor Education and Protection Fund (EPP)

NOTICE is hereby given to the Shareholders of the Company that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013 (The Act) read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Authority (Accounting, Authority (Accounting, Authority) (Accounting, Authority (Accounting, Authority (Accounting, Authority (Accounting, Authority) (Accounting, Authority (Accounting, Authority) (Accounting, Authority (Accounting, Authority) (Accounting, Authority) (Accounting, Authority) (Accounting, Authority) (Accounting, Authority) (Accounting, Authority) (Accounting Accounting Acco

31st October, 2022 to avoid transfer of resultant shares to the IEPF.

Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate in list of the original certificate hald by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and the Company shall inform the despotalor by two yet opportune action to convert the duplicate share certificate in its demat form and transfer in travour of IEPF. Further that the original share conflictate which is registered in the name of original share conflictate which is registered in the name of original shareholders and Transferred to the IEPF will stand automatically cancelled and be deemen on-negotable. Concerned shareholders holding shares in dematchalized form may note but the Company shall inform the depositor by two yet componer action for transfer of shares in favour of the demat account of the IEPF.

the IEFF.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders before 31st October, 2022. Company shall transfer the resultant Shares and dividend for the year 2014-15 in the account of IEFF pursuant to the provisions of the Act and the Rules.

Please note that no colamb shall is egainst the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to the IEFF. However, any person whose shares and unpud dividend is transferred to the IEFF may claim the shares and unpud dividend is transferred to the IEFF may claim the shares and unpud dividend is transferred to the IEFF may claim the shares and unpud dividend is transferred to the IEFF may claim the shares and unpud dividend is transferred to the IEFF may claim the shares and unpud dividend is transferred to the IEFF may claim the shares and unpud dividend from the IEFF thereone where the share and the IEFF may be accounted to the IEFF may claim to the shares and the IEFF may be accounted to the IEFF may be IEFF may be accounted to the IEFF

spinational designation of the above matter. Shareholders are requested to please contact Company's Register & Share Transfer Agent (RTA) – Wis. Ankl. Consultancy Pk. Ltd. at 80, Electronic Complex, Near Pardeshipurs, Indore (MP) – 452010 Phone: 0731–2361 T4546, E-email: ankl. 4231@yahou.com, investor ganktionline.com.

For Kriti Nutrients Limited

CS Raj Kumar Bhawsar iny Secretary & Compliano

बच्चे कुपोषण से बेहाल, आंगनवाड़ियां बदहाल : कांग्रेस इंदौर। बीते दिनों मध्यप्रदेश के चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 वर्षों बाद आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले 1 बच्चों की सुध ली। उन बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करने ठेले पर निकले। All bear marie of the विडम्बना देखिये आंगनवाडियों में पढने वाले बच्चों को शिवराज जी के फोटों वाले बड़े-बड़े विज्ञापन और समाचार

पत्रों की सुर्खियों के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सर्वे (4) की रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम, इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, इंदौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अति गंभीर (कुपोषित) बच्चों का प्रतिशत 9.2 था जो नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे (5) अर्थात 2021 में 6.5 है । इसी प्रकार गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रतिशत 25.8 से इस दौरान 19 प्रतिशत हुआ है । इसका आशय है कि प्रतिवर्ष मात्र 1 प्रतिशत से कुछ अधिक सदाशिव यादव, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल एवं प्रदेश कांग्रेस सचिव राजेश चौकसे की संयुक्त पत्रकार-वार्ता में बाताया कि नेशनल फैमिली हेल्थ का सुधार हो रहा है । इस अति धीमी प्रगति

को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान के दावे खोखले दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं मध्यप्रदेश में अभी भी 5 वर्ष तक के 30-35 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। जो कि देश के सभी प्रान्तों में सर्वाधिक की श्रेणी में है । आंगनवाड़ी सेवा स्कीम में वर्ष 20-21 में 1220 करोड़ और 21-

22 में नवंबर 21 तक 694 करोड़ अनुदान मिल चुका है। केंद्र सरकार हर पांच साल में प्रत्येक आंगनवाड़ी को 2लाख रुपये उन्नयन हेतु, 3 हजार मेंटनेंस हेतु, 19 हजार फर्नीचर हेतु, 3 हजार प्रति माह प्री एक्टिविटी (चॉक, पेंसिल खिलौने आदि) एक्टावटा (चाक, पासल खिलाने आहर) हेतु देती है। ये पैसा कहां जाता है। यह पता लगाना मुखिया का काम है, मगर ठेले लगाये जा रहे हैं, सामानों की सूची जारी करके जो भीख मांगी जा रही है।



Drunk hotel worker creates ruckus

INDORE: A hotel worker created a ruckus at a hotel in the Chhoti Gwaltoli area on Wednesday night. The police said that Dilip Thapa, who works in The Eidden Hotel at Chhoti Gwaltoli was detained. He is said to have drunk liquor and, in an inebriated state, reached the terrace of the hotel and tried to jump from it. He also harmed himself by striking himself with shards of glass broken from the hotel windows. A police team has detained him.

State govt to financially help IIT-I set up satellite campus

OUR STAFF REPORTER city.indore@fpj.co.in

As the cash-strapped Indian Institute of Technology Indore could not do it on its own, the state government has reportedly come forward to financially help the institute in setting up its proposed satellite campus in Ujjain. The MP government is in talks with the ministry of education for sharing the budget required for setting up the satellite campus in the ancient town.

"Once the state's percentage is decided, the proposal for funding the establishment of the satellite campus will be placed before state Cabinet for its approval," said a senior officer in department of higher education (DHE), Madhya Pradesh.

Additional chief secretary (Higher Education) Shailendra Singh had visited the IIT Indore campus last week and held talks with the institute authoriOnce the state's percentage is decided, the proposal for funding the establishment of the satellite campus will be placed before state Cabinet for its approval

ties. The institute officers told Singh that a budget of Rs 500 crore was required to set up the satellite campus in Ujjain. They also told Singh that there was a loan of about Rs 350 crore on IIT Indore so it could not establish a campus in Ujjain from its own resources.

Singh told the institute authorities that the state government was in talks with officers of the ministry of education so that the Centre and the state could share the budget for establishing the satellite campus. He, however, stated that the institute would have to run skill-development grammes also from the satellite campus so that investing money by the state confirmed the development government for establishing a central institution could be justified. According to sources in the DHE, the institute agreed to run skill-development courses along with its flagship programme from the Ujjain campus so that a skilled workforce for the state can

be produced. Around six months ago, higher education minister Mohan Yadav-who is an MLA from one of the Assembly constituencies in Ujjain-had revealed that IIT Indore planned to set up a satellite campus in the ancient town. The then IIT Indore officiating director, Neelesh Kumar Jain, had

stating that the satellite campus would start with some PG courses from the 2022-'23 session.

Vikram Vishwavidyalaya

was ready to provide space for a transit campus of IIT Indore until the institute's own premises, which is proposed on 100 acres of land at an outlay of Rs 500 crore, is set up. However, the financial issue cropped up after Suhas Joshi took over as the new director. Later it came to light that the institute actually had a loan of Rs 350 crore and so could not afford to take more loans for setting up the satellite campus. In an e-mail message to Free Press, IIT Indore said,

"Institute director Joshi is continuously in touch with the ministry of education for taking the project ahead. A detailed revised plan is being worked upon to have additional facilities of skill development, outreach activities, industrial set up, incubation and innovation, and so forth, which complements the activities of the main campus at Simrol."

The e-mail further read, "The funding for setting up of the campus is huge and hence, requires deliberation, funding from appropriate agencies and detailed planning. The process for this is already on by placing the matter before the institute's finance committee and the Board of Governors."

The e-mail also stated that since the requisite approval was required for the commencement of the courses, it might be difficult in this forthcoming semester (to start the satellite campus in Ujjain).

After two years, IIM Indore to hold CERE from June 3

get together academics, re-

searchers and experts to

share their views on the

theme. Apart from various

workshops on significant

topics by the experts, the

conference will also witness

numerous paper presenta-

tions on different tracks.

These include Digital Busi-

ness Operations, Business

Economics and Finance,

Business Policy and Strate-

gic Management, Commu-

nication in Business and Re-

search, Entrepreneurship,

Information Systems in

Management, Marketing,

Kishan Suthar and Abhi-

nay Mishra, CERE coordi-

nators, and FPM-2021 par-

ticipants, said that CERE-

2022 has received the maxi-

mum number of submis-

sions for paper presenta-

tions in the conference

Liberal Studies and so on.

OUR STAFF REPORTER citv.indore@fpi.co.in

The Indian Institute of Management Indore is going to conduct the 12th edition of the 'Conference on Excellence in Research and Education' (CERE) from June 3-5. The conference, which will be conducted in hybrid mode, focuses on the theme 'Digital Decade: E-Learning, E-Business and

E-Working'. The CERE is going to be held after a gap of two years. The elite B-school could not hold the conference due to the Covid-19 crisis for the last two years.

IIM Indore director Prof

Himanshu Rai noted that the previous decade has entirely transformed our lives with tremendous advancement in technology. "This digital revolution has proved to be a boon, especially during the pandemic. IIM Indore aims to be a contextually relevant institution, and thus, our conference theme will focus on the aspects of this digital and technical transformation," he said. The conference will

The elite B-school could

not hold the conference

due to the Covid-19 crisis

for the last two years

theme track. "We're excited to welcome our experts, delegates and speakers to the conference. Some of the names include Prof Arvind Sahay, faculty, IIM Ahmedabad; Prof Sonjaya Gaur, New York University; Prof Saman Muthukumarana, director - Data Science Nexus and faculty, University of Manitoba; Prof Tathagatha Bandyopadhyay, professor, DAIICT Gandhinagar; Harshvardhan Chauhan, VP, Chief Marketing and Omnichannel officer, Spencer's Retail; Amardeep Randhawa, head - Monetization and Partnerships, Adani Digital; and Arnab Deb, industry expert on ESG, Manager research -Sustainalytics.

The conference will also felicitate the best papers during the valedictory

Traffic police digitise and launch 90 PoS machines

OUR STAFF REPORTER city.indore@fpj.co.in

A total of 90 point-of-sale (PoS) machines were launched on Wednesday commissioner of police Harinarayanachari Mishra for digital payment for challans on traffic rules violations. Mishra said that, in this era of technology, it is very important that we also use technology during action against drivers who violate traffic rules. This will bring more transparency to the pro-

ceedings. A new system of digital payment is being made for depositing fines for traffic rules violations, which 90 PoS machines have been pro-

vided to Indore Police. Now, after this new system, for violating traffic rules, a driver can pay the fine amount through debit/credit card through the PoS machine. The invoicing officer will also take the photograph of

the procedure set out in the Rules.

Kriti Nutrients Ltd.

Regd. Office: Mehta Chambers, 34, Siyaganj,

E-mail: cs@kritiindia.com, Website: www.kritinutrients.com

Indore-452 007 Phone: 0731-2719100/ 26

NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to

Investor Education and Protection Fund (IEPF)

NOTICE is hereby given to the Shareholders of the Company that

pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013

("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority

(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as

amended, the dividend declared on the equity shares of the company for the financial year 2014-15, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the Investors Education and Protection

Fund (IEPF) on or after 31st October, 2022. Further that the resultant

Equity shares each on which dividend was unclaimed for seven

consecutive years will also be liable to be transferred to the IEPF as per

In compliance to the Rules, the Company are being communicated

individually to all the concerned shareholders and such eligible shares are liable to be transferred to IEPF as per details made available on the

Therefore, the concerned Shareholders of the Company are requested

to claim the dividend declared for the financial year 2014-15 before

Concerned shareholders holding shares in physical form and whose

shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company

would be issuing duplicate share certificate in lieu of the original

certificate held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and

the Company shall inform the depository by way of corporate action to

convert the duplicate share certificate into demat form and transfer in

favour of IEPF. Further that the original share certificate which is

registered in the name of original shareholders and Transferred to

the IEPF will stand automatically cancelled and be deemed non-

negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized

form may note that the Company shall inform the depository by way of

corporate action for transfer of shares in favour of the demat account of

In case the Company does not receive any communication from the

concerned shareholders before 31st October, 2022. Company shall

transfer the resultant Shares and dividend for the year 2014-15 in the

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the

unclaimed dividend amount and shares so transferred to the IEPF.

However, any person whose shares and unpaid dividend is transferred

to the IEPF may claim the shares and dividend from the Investor

Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") pursuant to

the provisions of Section 124 and 125 of the Act by submitting an online

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to

please contact Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) -

M/s. Ankit Consultancy Pvt. Ltd. at 60, Electronic Complex,

Near Pardeshipura, Indore (MP) - 452010 Phone: 0731-2551745/46,

For Kriti Nutrients Limited

E-mail: ankit 4321@yahoo.com, investor@ankitonline.com.

application in Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in.

account of IEPF pursuant to the provisions of the Act and the Rules.

31st October, 2022 to avoid transfer of resultant shares to the IEPF.

website of the Company at www.kritinutrients.com

CIN: L24132MP1996PLC011245

the driver on the spot and feed the registered number or chassis number of the vehicle into the machine.

The vehicle owner's information will automatically come on display in the machine and the driver's information will be fed by the officer. The amount of fine will be displayed as soon as the information for violating traffic rules is fed into it.

Challans can be generated from a PoS machine even in case of cash payment by the driver. In case the driver does not have the facility of cash payment or digital payment on the spot, a link will be shared through a message by feeding the mobile number registered with his bank into the PoS machine. The driver can pay the fine in 7 days through the link and, in case of non-payment, the amount of challan will have to be deposited in court.

74-year-old man shoots himself dead

OUR STAFF REPORTER city.indore@fpj.co.in

A 74-year-old man ended his life with a 12-bore gun in Sikh Mohalla on Wednesday. No suicide note was recovered from the spot. MG Road Police officials said that Harbhajan Singh, 74, shot himself dead with a 12-bore gun. The reason for suicide is unclear. Cops said the gun was licensed. Around 2 pm, the police were informed that Singh had shot himself. The police said, probably, he was under tension for some reason which forced him to take his own life. However the statements of Singh's family members are yet to be taken down and the police are investigating the case further.

Additional flight from city to Mumbai from tomorrow

TK Jose, chairman of the

Vistara airline is starting the flight

> **OUR STAFF REPORTER** city.indore@fpj.co.in

Fliers from the city, as well as the region, are going to get an additional daily flight for Mumbai from June 3. In view of the growing passenger traffic to Mumbai, Vistara-a Tata Group joint venture airline-is going to introduce a daily flight for Mumbai.

Travel Agents' Federation of India (TAFI), said here on Tuesday that after the Covid-19 pandemic abated, the passenger load on the flights currently operated on the Indore-Mumbai sector has been raised. To reap this opportunity, the airline has decided to roll out the flight on this second busiest sector after New Delhi from June 3.

According to the schedule, flight UK-507 will depart from Mumbai at 12.45 pm and arrive

in the city at 1.55 pm. The return flight UK-508 will depart from the city at 2.35 pm and reach Mumbai at 03.50 pm. Jose said that the airline had started ticket booking. Currently, the one-way fare on the Mumbai-Indore flight is being quoted at Rs 5,117 and on the Indore-Mumbai flight at Rs 5,332. Ullas Nair of Vistaar Travels said that Vistara was reintroducing its Indore-Mumbai flight. In the hard times of corona, the airline had stopped the operation of this flight.

Two youths attempt to rape a girl

INDORE: Two youths attempted to rape a girl in Omaxe City 1. The accused entered the girl's house and tried to force himself upon her. The victim, somehow, defended herself and saved herself. A case has been registered at the Lasudiya police station. The police said that, according to the complainant, after attempting to rape the victim, the accused with three other accomplices came to the victim's house and threatened her and her family not to lodge a complaint. They also assaulted her family members and threatened them with dire consequences. Police are investigating the case further.

From Syrian battlefield, art warriors keep inlay alive





Syrian interior designer Issam Dady with his friend, Movses Ayarian

OUR STAFF REPORTER city.indore@fpj.co.in

> Even in the land of war, art lives on and, from there, art finds its way to faraway Indore with two men bringing a happy message. A Syrian interior designer, Issam Dady, with his friend, Movses Ayarian, is visiting Indore with the aim of keeping auspicious rosewood inlay work

alive. Dady is a Syrian, who is cur-



rently living through the ongoing war in his country. Ayarian is half-Syrian and half-Armenian.

In an exclusive interview

Inlay wood jewellery and other decorative items prepared by Syrian artisan with us, the head of the movement, Dady, spoke about the current situation in Syria, the struggles of its citizens, inlay wood art and Indore's market.

Syria: An on-going war; Visa troubles

One of the biggest and longest hits as a consequence to war is economy, of course, after loss of lives,' Dady says. He adds that the war goes on in Syria and even the survivors are often struggling to feed themselves, with no business opportunities

'Many people left the

country as refugees. So, now, most countries are hesitant about issuing visas to Syrians fearing they won't return to their country, Dady said. 'This adds more pressure to the residents and stops them from even travelling for business'

A FAMILY TRADITION: INLAY WOODWORK

- The ancient craft of inlay, or intarsia, evolved in Europe and its nearby areas, especially Syria. Dady's family was among the first ones to work on this form of art
- 'From my great grandfather and beyond, this art was taught to children in the family and used as a family tradition and business,' Dady says
- He explains that inlay art is a form of woodwork, in which a solid body of one material is cut out to receive sections of another to form the surface pattern

FROM DIAMONDS TO SEA-SHELLS... A DYING ART

- 'In the olden days, diamonds were inserted into inlay woodwork and it was used by royal families in their bedrooms. But now, it's not affordable for anyone, Dady says. However, to add the necessary glam to the work, they add sea-shells now
- 'Sea shells add that little white and shine to the work helping it stand out, which is affordable by most people, Dady says. He adds that rosewood is used for making this art
- 'Rosewood is a popular and much-sought-after tone wood for acoustic guitar fret boards, and Indian rosewood is among the best in the world, so India can save this art, Dady says
- He adds that, although this is an important art, it's a dying art form now. 'The art requires a lot of work and not many people can afford it, so it's slowly dying out,' Dady says.
- In India, inlay woodwork is kept alive by a small group of artisans in Mysuru, but the number is falling every day

AD-MANUM FINANCE LIMITED CIN:L52520MP1986PLC003405

"Agarwal House", 5, Yeshwant Colony, Indore-452003 Phone No. 0731-4714024 Fax: 0731-4043193 Website:www.admanumfinance.com, Email: cs@admanumfinance.com

NOTICE is hereby given to Shareholders of the Company that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") as amended, the dividend declared on the equity shares of Rs. 10/- each for the financial year 2014-15, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) on or before 05-12-2022. further that the resultant Equity shares of Rs. 10/- each on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also liable be transferred to the IEPF as per the procedure set out in the Rules.

In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on our website at www.admanumfinance.com. Therefore, the Shareholders of the Company are requested to claim the dividend declared for the financial year 2014-15 on or before 05-12-2022 to avoid transfer of shares to the IEPF. Concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to

be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share

certificate in lieu of the original certificate held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate into demat form and transfer in favour of IEPF. Further that the original share certificate which is registered in the name of original shareholders and Transferred to the IEPF will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Concerned shareholders holding shares in dematerialized form

transfer of shares in favour of the demat account of the IEPF. In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 05-12-2022 Company shall transfer the resultant Shares and Dividend for the year 2014-15 in the account of IEPF pursuant to the provisions of the Act

may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend amount and shares so transferred to the IEPF. However, any person whose shares and unpaid dividend is transferred to the IEPF may claim the shares and dividend from the Investor Education and Protection Fund Authority ("IEPF Authority") pursuant to the provisions of Section 124 and 125 of the Act by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the website www.iepf.gov.in.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to please contact Company's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) . M/S Ankit Consultancy Pvt Ltd at 60. Electronic Complex, Near Pardeshipura, Indore (M.P.)- 452010 Phone: 0731 • 2551745146, Email: ankit 4321@yahoo.com.

Place: Indore

Date: 01-06-2022

For AD- Manum Finance Limited

(CS. Mohd. Raees Sheikh) Company Secretary Mem. No. F6841

PCB secretary apprised of transformer unit glitches

OUR STAFF REPORTER city.indore@fpj.co.in

A delegation of industrialists met the member secretary of Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB), A K Mishra in Bhopal on Wednesday. They briefed him about the problems encountered by the transformer industry.

ceedings.

The delegation met under the aegis of Association of Industries of Madhya Pradesh (AIMP). Its president Pramod Dafaria informed that according to the instructions issued by the departmental notification, those industries have been kept in the Orange category which was also present in the manufacture or repair meeting. transformers by dry the association had raised process only. Due to this, industries are facing diffi-

culties in procedural pro-Vice President Yogesh Mehta and Amit Dhakad

Delegation of industrialists

requested member secretary of PCB Mishra on behalf of the transformer industry that according to Orange category no 93 of transformer industry notification, those who do not manufacture or repair through dry process, all of the pollution department be freed from procedures and its clarification issued by the department. Mishra assured the association that the problem would be resolved soon through clarification. Industrialist Vijay Oswal

Dafaria said, 'Last week, the issue with Anirudh Mukherjee, principal secretary of the department, that permission is taken by a factory management

for consent to operate industries for 5 years. But after a year if the said unit goes into expansion or wants to increase production capacity or wants to add any product, then it has to take the permission once again with new 'fees' and the amount of 'fees' for the rest of the year is not adjusted with the new 'fees'. The principal secretary

had taken the association into confidence to initiate action on this. In such cases, the adjustment of the balance amount of industries can be done in the coming years, due to which there will be no economic loss to the industry. This has been an achievement due to efforts of the association. It will benefit industries.

Depressed youth jumps from bulding, but alive **OUR STAFF REPORTER** city.indore@fpj.co.in

A vouth who is reportedly in depression attempted suicide in the Malharganj area on Wednesday. The people of the area saved the youth and, according to the police, he is out of danger.

The police said that Ramesh Sunane of Maharashtra jumped from the terrace of a two-storey building. He was in depression due to family issues which made him take such a step.

The incident took place around 4pm on Wednesday. When the man climbed over the railing of the building, people started gathering around on the street. Some people also set up nets below the building.

The man jumped from the building and fell into the net in which he got saved by the people. The police took Ramesh to hospital for examination and it was found that he received minor injuries.

CS Rai Kumar Bhawsar Company Secretary & Compliance Officer

epaper.freepressjournal.in

Place: Indore Date: 01.06.2022